Ph. 033-2231-0926, +919674997255

e-mail: arcsale.horecovery@allahabadbank.in

Dt. 18.01.2018

General Manager (R)



## Hero MotoCorp Limited

Registered Office: 34, Community Centre, Basant Lok,
Vasant Vihar, New Delhi – 110 057
CIN: L35911DL1984PLC017354 Phone: 011-46044100 Fax: 011-2614 3321 Email: secretarialho@heromotocorp.com, Website: www.heromotocorp.com

#### NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on Tuesday, February 6, 2018, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2017.

This intimation is also available on the website of the Company at www.heromotocorp.com and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com. For Hero MotoCorp Ltd.

Place: New Delhi Date: January 17, 2018

Sd/-Neerja Sharma **Company Secretary** 

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the membership of the following member(s) of the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX) have been terminated in accordance with the provisions of Rule 5.9 of the Exchange Rules upon their failure to comply with eligibility requirement as specified under Rule 8 of Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 (SCRR);

Sr No.	TMID	Name of Member	Member's Correspondence Address
1	958	Sharda Comtrade Private Limited	701, Nirmal Tower, 26, Barakhamba Road, New Delhi-110001
2	550	Shree Hari Commodities Private Limited	C/O Loon Karan Daftari, Behind Power House, Old Lane, Gangashahar, Bikaner-334001

The General public is requested to take note of the fact that aforesaid Members who were kept under the "Disable mode" from the date of disablement as indicated against each of their names owing to the non-compliance of the directives of SEBI with respect to the eligibility requirement as specified under Rule 8 of Securities Contract (Regulation) Rules, 1957 (SCRR), have now therefore ceased to be member of the Exchange.

The registered constituent(s) of the above aforesaid members who have undertaken any trades through these members are hereby advised to lodge their claims, if any against the said member(s) within 60 (sixty) days from the date of this notification failing which it shall be presumed that there is no claim against the aforesaid members. Non filing of the claim within the stipulated period of 60 days shall be deemed to be a waiver of any claims against the aforesaid members and the receipt and adjudication of the claim shall be at the sole discretion of the Exchange and/or upon the Regulatory Directives, if any.

Authorised persons (AP) registered through the above mentioned trading member shall therefore automatically cease to be exist in accordance with the directives of the SEBI/Exchange. The list of these APs is available on www.ncdex.com. Investors may take note of the same.

The constituents may write to Ms. Shilpa Desai, Vice President, Arbitration & Investor Services department, National Commodity and Derivatives Exchange Ltd, Ackurti Corporate Park, LBS Marg, Kanjurmarg (W), Mumbai 400 078 or email at ig@ncdex.com

Place: Mumbai Date: 18.01.2018 For National Commodity and Derivatives Exchange Ltd

Membership



NATIONAL COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED 1st Floor, Akruti Corporate Park, LBS Marg, Kanjurmarg (W), Mumbai-400 078 CIN: U51909MH2003PLC140116



Particulars	31.12. Unauc
Total Income from operations (net)	41,8
Net Profit before tax	4,8
Net Profit after tax	3,7
Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3,6
Paid up Equity Share Capital	1,8
Reserves (excluding Revaluation Reserves)	
Earnings Per Share (of Re 1 each)	
Basic earnings per share (Rs)	2
Diluted earnings per share (Rs)	2

#### Notes:

- 1. The above unaudited financial results of the Company for the guarter ended 1 have been subjected to Limited Review by the statutory auditors of the Comp
- The National Company Law Tribunal vide its Order dated March 01, 2017, as 1, 2016. The amalgamation has been accounted in accordance with the 'Bu said amalgamation has been accounted retrospectively for all periods prese restated so as to include the financial information of JCPML. The difference Company have been recorded as capital reserve in the Standalone financial s in the earlier years.
- 3. In the earlier years, the Company had applied to the Central Government for Companies Act, as applicable. During financial year 16-17, certain ESOP's b of Managerial Remuneration for the year ended March 31, 2017 is in excess paid to the director for the three years ending May 2017, however, the said E of the section 197 of the Companies Act, 2013 is amended and accordingly Act, within a period of one year and pay remuneration to managerial personn
- Sales for the quarters ended December 31, 2017 and September 30, 2017 is
- During the quarter, the Company has allotted 56,308 equity shares of Re. 1/-As a result of such allotment, the paid-up equity share capital of the Compar-
- 6. The full format of the quarter and year ended financial results are available on

Place: Mumbai Date: January 17, 2018



परिशिष्ट 4

देखें नियम 8(1)

दखल सूचना

(अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लि. (CIN: L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने

के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 (54 ऑफ 2002)] के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ

सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके

कर्जदारों श्री./श्रीमती जसमीत सिंह कोहली (उर्फ जसमीत सिंह) असमीन कौर कोहली (उर्फ असमीन कौर)

और गुरजीत कौर को 05.05.2017 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDIP00169963

की राशि रू.40,14,978/- (रूपये चालीस लाख चौदह हजार नौ सौ अठहत्तर मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति

की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर 04.05.2017 के अनुसार @ 12.75% प्रति वर्ष की दर से भावी ब्याज

के साथ 05.05.2017 से प्रभावी होकर भुगतान की वास्तविक तिथि तक चुकता करने का आवाहन करते हुए

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना

दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13(4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत प्राप्त

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत सम्पति / सम्पतियों को मुक्त

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया

जाता है और संम्पित के साथ कोई भी भौदा राशि रू.40,14,978/- (रूपये चालीस लाख चौदह हजार नौ

सौ अठहत्तर मात्र) 04.05.2017 के अनुसार @ 12.75% प्रति वर्ष की दर से भवी ब्याज के साथ

05.05.2017 से प्रभावी होकर भुगतान की वास्तविक तिथि तक की धनराशि पर इंडियाबुल्स हाउसिंग

अचल संम्पति का ब्यौरा

संपत्ति है - रेसिडेंशियल प्लोट बेअरींग सी-19, "सी"-ब्लोक में मापित 538.271 स्क्वे. वार्डस,

"पियुष सिटी", भिवाडी गाँव बानबिरपुर में स्थित, तातरपुर और कालका तहसिल विज्ञारा,

जिला अलवार, राजस्थान - 301019.

अधिकारों का कार्यान्वयन करके 16.01.2018 को संम्पति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

Hero

# हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्यूनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057

CIN: L35911DL1984PLC017354 फोन: 011-46044100 फैक्स: 011-2614 3321 ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

#### सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 व अन्य लागू विनियमों के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के साथ-साथ अनुमोदन के लिए मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 को आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.heromotocorp.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com व www.nseindia.com जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के लिए

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 17 जनवरी, 2018

VENTURES

इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

CIN: L74999DL1995PLC069631

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 फोन:0124-6681199 फैक्स: 0124-6681240 ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com वेबसाईट: www.indiabullsventures.com

#### सूचना

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि दिसम्बर 31, 2017 को समाप्त हुई तिमाही और नौमाही के लिए, इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, जनवरी 24, 2018 को आयोजित की जाएगी।

कृपया अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाईट (http://www.indiabullsventures.com) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (http://www.nseindia.com) या बीएसई लिमिटेड (http://www.bseindia.com) पर संम्पर्क करें।

बोर्ड की आज्ञानुसार

नीरजा शर्मा

कंपनी सचिव

कृते इंडियाबुल्स वेनचर्स लिमिटेड

सही/-

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : जनवरी 17, 2018

ललित शर्मा कंपनी सचिव

Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Change of registered office of the company from Delhi to Uttar Pradesh **Before the Central Government Northern Region** 

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) **Rules, 2014** 

In the matter of Indotech Switchgear And Controls (Delhi) Private Limited having its registered office at D-212B, Street No. 14, Dashrathpuri, Dabri Palam Road Delhi - 110045, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 30th December 2017 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal the

जब कि.

अभियाचना सूचना जारी की थी।

फायनांस लि. के आधीन होगा.

उक्त संम्पतिया निम्ननुसार बद्ध है।

उत्तर की ओर: टाइटलं डीड के अनुसार

पूर्व की ओर : टाइटल डीड के अनुसार

कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आकर्षित किया जाता है।

be bility ove eies.

lice

ral

दिनांक :16.01.2018

स्थान : अलवर

दक्षिण की ओर : टाइटल डीड के अनुसार पश्चिम् की और : टाइटल डीड के अनुसार

Sd/-प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लि.

नेक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

: दानी कार्पोरेट पार्क, 5वीं मंजिल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलिना, मुंबई — 400098 टेली.: 022—6741 2314, फैक्स : 022—67412313 CIN: U67190MH2007PTC168303 Website: www.phoenixarc.co.in

नेयम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) तेभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स (यहां के बाद 'फीनिक्स' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा प्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज व अन्य शुल्कों सहित 15.10.2016 से ),059.29/- (रुपए तीन करोड़ सताइस लाख उनसठ और पैसे उनतीस ऋणियों मौजूदा श्री जी रिसाइकिलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमती सुमन शर्मा (व्यक्तिगत गारंटर) (ऋणी व व्यक्तिगत गारंटर मंदर्भित) को बुलाने हेतु दिनांक 24.10.2016 को मांग सूचना जारी की थी। नफल रहे, एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित किया री ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) अनुपालन में यहां नीचे अनुसूची ए वर्णित संपत्ति पर 15 जनवरी 2018 की

रण को एतद्द्वारा नीचे वर्णित अनुसूची ए में संपत्ति के साथ लेन-देन न ऐसी संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन 15.10.2016 से राशि रु. करोड़ सताइस लाख उनसठ और पैसे उनतीस केवल) आकस्मिक व्ययों, अनुबंध दर पर ब्याज सहित फीनिक्स के प्रभार का विषय होगा। यों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की

अनुसूची ए

2004 के अंतर्गत अधिक रूप से वर्णित डी-30, पहली मंजिल, ब्लॉक डी, ाग के सामने दिल्ली-110007 में स्थित उसपर बने सभी संशोधनों के साथ त्ति माप 101.10 वर्ग यार्ड के सभी भाग व पार्सल प्राधिकृत अधिकारी

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी-वित्तीय वर्ष17-18

neral

mber 929, pany ance een and

ase



